



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 535]
No. 535]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15, 1979/अग्रहायण 24, 1901
NEW DELHI, SATURDAY DECEMBER 15, 1979/AGRAHAYANA 24, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और उर्वरक विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1979

का. आ. 809 (अ).—केंद्रीय सरकार, स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1977 (1977 का 41) की धारा 32 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों और उसमें समर्थन वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का नाम स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1977 की धारा 32 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों और उसमें समर्थन वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1977 (1977 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) इस में प्रयुक्त और अपरिभाषित परन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. अधिनियम की धारा 17 के अधीन अधिधि की संगणना.—सीस किन की उस अधिधि की संगणना, जिसके भीतर प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा है, अधिनियम की धारा 17 के अधीन आयुक्त के समक्ष ऐसा दावा प्रस्तुत करेगा, इस आदेश के प्रारम्भ की तारीख से की जाएगी।

[सं. 42016(1)/79डी-8]

सी. बी. एस. मणि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND
FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Fertilizers)

ORDER

New Delhi, the 15th December, 1979

S.O. 809(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Smith, Stanistreet and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1977 (41 of 1977), and of all other powers hereunto enabling the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Smith, Stanistreet and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Removal of Difficulties Order, 1979.

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Smith, Stanistreet and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1977 (41 of 1977) ;
- (2) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Computation of period under section 17 of the Act.—The period of thirty days within which every person having a claim against the Company shall prefer such claim before the Commissioner under section 17 of the Act shall be computed from the date of commencement of this Order.

[No. 42016(1)/79-D-VI]

C. V. S. MANI, Joint Secy.